

जमानतदार से भरवाये जाने वाला घोषणा पत्र

(5/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी तहसील जिला
..... (राज.) सशपथ घोषणा करता हूँ कि मेरे नाम से निम्न-लिखित
अचल सम्पत्तियाँ सभी प्रकार के भारों से भारमुक्त है तथा मेरे स्वामित्व में है और कहीं भी
रहन नहीं है :-

क्र.सं.	विवरण अचल सम्पत्ति	बाजार मूल्य
1		
2		
3		
4		

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी सशपथपूर्वक बयान करता हूँ कि
उक्त घोषणा पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं
इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और ना ही कुछ छिपाया है।

हस्ताक्षर

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी प.स. जिला
..... ने दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा से
ऋण लेने हेतु रु. का आवेदन किया है। मैं इनकी रु.
की मानत ना स्वीकार करता हूँ। यदि श्री उक्त बैंक/समिति को ऋण की
देय ड्यू किश्त/ब्याज समय पर जमा कराने में दोषी रहता रहा तो बकाया किश्त व ब्याज
मैं उक्त व्यक्ति की ओर से जमा कराने का दायित्व लेता हूँ अन्यथा बैंक/समिति को
अधिकार होगा कि वह मेरी ऊपर वर्णित चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क कर बकाया राशि व
ब्याज वसूल कर लेवे। मेरी जमानत पूर्ण ऋण चुकाने तक रहेगी तथा ऋण चुकाने से पूर्व
उक्त वर्णित सम्पत्ति को मैं खुर्द-बुर्द नहीं करूँगा।

हस्ताक्षर जमानतदार
(प्रथम/द्वितीय)

गवाह :- 1.
2.

जमानतदार से भरवाये जाने वाला घोषणा पत्र .

(5/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी तहसील जिला
..... (राज.) सशपथ घोषणा करता हूँ कि मेरे नाम से निम्न-लिखित
अचल सम्पत्तियाँ सभी प्रकार के भारों से भारमुक्त है तथा मेरे स्वामित्व में है और कहीं भी
रहन नहीं है :-

क्र.सं.	विवरण अचल सम्पत्ति	बाजार मूल्य
1		
2		
3		
4		

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी सशपथपूर्वक बयान करता हूँ कि
उक्त घोषणा पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं
इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और ना ही कुछ छिपाया है।

हस्ताक्षर

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी पं.स. जिला
..... ने दी बाँसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाँसवाड़ा से
ऋण लेने हेतु रु. का आवेदन किया है। मैं इनकी रु.
की मानत ना स्वीकार करता हूँ। यदि श्री उक्त बैंक/समिति को ऋण की
देय ड्यू किश्त/ब्याज समय पर जमा कराने में दोषी रहता रहा तो बकाया किश्त व ब्याज
में उक्त व्ययित की और से जमा कराने का दायित्व लेता हूँ अन्यथा बैंक/समिति को
अधिकार होगा कि वह मेरी ऊपर वर्णित चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क कर बकाया राशि व
ब्याज वसूल कर लेवे। मेरी जमानत पूर्ण ऋण चुकाने तक रहेगी तथा ऋण चुकाने से पूर्व
उक्त वर्णित सम्पत्ति को मैं खुर्द-बुर्द नहीं करूँगा।

हस्ताक्षर जमानतदार
(प्रथम/द्वितीय)

गवाह :-

1.

2.

- 8- प्रस्तावित प्रयोजन से आय-व्यय का विवरण।
वर्ष की कुल आय राशि.....
वर्ष की कुल व्यय राशि.....
शुभ लाभ.....
(विस्तृत विवरण संलग्न करें)
- 9- अद्य प्रमाण पत्र परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।
- 10- आवेदक के पास वर्तमान में उपलब्ध चल सम्पत्ति का विवरण।
- 11- प्रयोजन से होने वाली आय-व्यय तथा ऋण की अदाथगी के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट '10' पर संलग्न हैं।
- 12- मैं ऋण आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों को फोटो प्रति संलग्न करता हूँ। मूल दस्तावेज ऋण सिवृति के पश्चात् कर दूंगा।
- 13- मैं/ हम घोषणा करता/करती/करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्यों हेतु किसी अन्य संस्था से ऋण नहीं ले रखा है और न ही किसी संस्था की ऋण चुकाने में दोषी है।

निवेदन है कि मुझे ऋण अग्रिम करने के संबंध में बैंक की सभी शर्तें स्वीकार हैं तथा बैंक द्वारा समय-2 पर निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तें स्वीकार हैं। (मय अग्रिम पर ब्याज दर)

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

स्थायी पता.....

6-आवेदक द्वारा ऋण लेने हेतु जमानत स्वरूप प्रस्तुत की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण

स्थान

अनुमानित मूल्य

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

योग

अचल सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करें।

7-जमानतदारों का नाम व पता :

1-जमानतदार का नाम.....

पिता का नाम

स्थायी पता

व्यवसाय

जमानतदार का नाम.....

पिता का नाम

स्थायी पता

व्यवसाय

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति का विवरण.....

सम्पत्ति का नाम अनुमानित मूल्य

सम्पत्ति का नाम अनुमानित मूल्य

1-

2-

3-

4-

5-

योग

योग

दी बांसवाडा सैन्ट्रल कॉ-ओपरेटीव बैंक लि.
बांसवाडा (राज.)

ऋण आवेदक पत्र

प्रबंध निदेशक,
दी बांसवाडा सैन्ट्रल कॉ-ओपरेटीव बैंक लि.
बांसवाडा

महोदय,

निवेदन है कि मैं
(प्रयोजन का नाम) हेतु अपना ऋण आवेदन पत्र निम्न सूचनाओं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ / रही हूँ :-

- 1- आवेदक का नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- स्थाई पता
- 4- वर्तमान व्यवसाय
- 5- (प्रयोजन का नाम)

क्रय करने हेतु कुल इकाई लागत की राशि रुपये
है जिसका वितरण निम्न प्रकार है :

(अ) इकाई लागत

प्रयोजन	राशि
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	

योग

(ब) ऋण लेने वाले व्यक्ति का अंशदान राशि रुपये

(स) शेष राशि (अ-ब) रुपये